

तुरंत रिलीज के लिए

**मेयर ब्राउन, काउंसलर्स, लाइव संगीत के साथ, कार में बैठे-बैठे ही  
कैनेडा डे का अनुभव लेना न भूलें**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 जून, 2020) – ऑनलाइन [www.brampton.ca/canadaday](http://www.brampton.ca/canadaday) पर ब्रैम्पटन की, कैनेडा डे (Canada Day) प्रोग्रामिंग के अलावा, मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसलर, ब्रैम्पटन के कैनेडा डे का जश्न सड़क पर भी मना रहे हैं! काउंसिल के सदस्य, 1 जुलाई को हर वार्ड जोड़ी में, लाइव संगीत, फूड ट्रक और लोकल बेकरीज से मुफ्त बिस्कुटों (कुकीज) का प्रबंध करेंगे।

यह व्यक्तिगत जश्न, ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर के पार्किंग लॉट्स में बाहर होंगे। निवासियों से अनुरोध है कि वे कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए अपने वाहन में आएँ और अंदर ही बैठे रहें। अपने वाहनों से ही, निवासी लाइव संगीत का आनंद ले सकते हैं और फूड ट्रक की, बिना कार से उतरे ही भोजन लेने की प्रक्रिया द्वारा भोजन खरीद सकते हैं। मेयर और वार्ड काउंसलर, मास्क और दस्ताने पहनकर, सामान खत्म होने तक, वाहनों में ही मुफ्त बिस्कुट देंगे।

**सुबह 11 बजे से 11:45 बजे तक: वार्ड 1 और 5**

340 वोडन स्ट्रीट ईस्ट (340 Vodden Street East) में सेंचुरी गार्डन्स रेक्रिएशन सेंटर (Century Gardens Recreation Centre) में जाएं, जहां आप काउंसलर्स रोएना सैंटोस (Rowena Santos) और पॉल विसेंट (Paul Vicente) के साथ मेयर ब्राउन को देखेंगे! द जैज़ मकेनिक्स (The Jazz Mechanics) द्वारा लाइव संगीत का आनंद लें, द माइटी कोब (The Mighty Cob) से भोजन खरीदें और लोकल बेकरी ओकेजन्स (OccaSSions) से स्नैक के तौर पर मुफ्त बिस्कुट प्राप्त करें।

**दोपहर 12 बजे से 12:45 बजे तक: वार्ड 2 और 6**

ऐबलेट (Ablett) और कूपर (Cooper) द्वारा लाइव संगीत का आनंद लेने के लिए, द माइटी कोब से भोजन खरीदने और लोकल ग्रैंड बेकर्स (Grand Bakers) द्वारा स्नैक के तौर पर मुफ्त बिस्कुट प्राप्त करने के लिए, 1050 सैंडलवुड पार्कवे वेस्ट (1050 Sandalwood Parkway West) में कैसी कैम्पबेल कम्युनिटी सेंटर (Cassie Campbell Community Centre) में जाएं। मेयर ब्राउन और काउंसलर, माइकल प्लेशी (Michael Palleschi) और डग विलैन्स (Doug Whillans), सीधे आपके वाहन में बिस्कुट प्रदान करेंगे।

**दोपहर बाद 1 बजे से 1:45 बजे तक: वार्ड 3 और 4**

ब्रैम्पटन फोक क्लब (Brampton Folk Club) द्वारा लाइव संगीत का आनंद लेने के लिए, जैमीज क्रैकड कोर्न (Jamie's Cracked Corn) से भोजन खरीदने और लोकल क्रिस्टीनाज टोर्टिना शॉप (Cristina's Tortina Shop) से स्नैक के तौर पर मुफ्त बिस्कुट प्राप्त करने के लिए, 69 एलियट स्ट्रीट (69 Elliott Street) में मेमोरियल अरेना (Memorial Arena) में जाएं। मेयर ब्राउन और काउंसलर जेफ बोमैन (Jeff Bowman) और मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), यह सब आपके वाहन में प्रदान करेंगे।

**दोपहर बाद 2 बजे से 2:45 बजे तक: वाईस 7 और 8**

सेल्टिक बैंड एरिन्स मार्लोर (Celtic Band Erin's Marlore) द्वारा लाइव संगीत का आनंद लेने के लिए, द माइटी कोब से भोजन खरीदने और लोकल केक्स बाइ एमिली के. (Cakes by Emily K) द्वारा स्नैक के तौर पर मुफ्त बिस्कुट प्राप्त करने के लिए, 1100 सेंट्रल पार्क ड्राइव (1100 Central Park Drive) में ग्रीनब्रायर रेक्रिएशन सेंटर (Greenbriar Recreation Centre) में जाएं। मेयर ब्राउन और काउंसलर, पैट फोर्टिनी (Pat Fortini) और शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams) वहां मौजूद रहेंगे।

**दोपहर बाद 3 बजे से 3:45 बजे तक: वाईस 9 और 10**

बग्गा सिंह (Bagga Singh) द्वारा लाइव संगीत का आनंद लेने के लिए, द माइटी कोब से भोजन खरीदने और लोकल बेकरीज, लैकोस्ट बेकरी (Lacoste Bakery) और कुकीज बाइ डिज़ाइन (Cookies by Design) द्वारा स्नैक के तौर पर मुफ्त बिस्कुट प्राप्त करने के लिए, 10150 द गोर रोड (10150 The Gore Road) में गोर मेडोज कम्युनिटी सेंटर (Gore Meadows Community Centre) में जाएं। यहां पर, काउंसलर गुरप्रीत ढिल्लों (Gurpreet Dhillon) और हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), मेयर ब्राउन के साथ जुड़ेंगे।

### **कोविड-19 से सुरक्षा उपाय**

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, शारीरिक दूरी जैसे उपाय लागू होंगे। निवासियों से अनुरोध है कि वे बिना कार से उतरने वाले कैनेडा डे के जश्न का आनंद लेने के लिए अपने वाहनों में ही रहें। सिटी, शामिल होने वालों से अनुरोध करती है कि वे मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे, खुद के रोगाणुनाशक पदार्थ अपने साथ रखें।

### **कैनेडा डे का जश्न – ऑनलाइन मनाएं!**

अपने घरों में ही कैनेडा डे का जश्न मनाने में, ब्रैम्पटन के निवासियों की मदद करने के लिए, सिटी [www.brampton.ca/canadaday](http://www.brampton.ca/canadaday) पर ऑनलाइन जश्न मना रही है। 1 जुलाई को दोपहर से लेकर रात 10 बजे तक, निवासी परिवार-अनुकूलित गतिविधियों, पटाखों के आभासी (वर्चुअल) डिस्प्ले, परिवार के पसंदीदा कलाकारों और जूनो (JUNO) अवॉर्ड-विजेता, स्प्लैश एन बूट्स (Splash'N Boots), लोकल कलाकारों और जूनो अवॉर्ड-विजेता मुख्य प्रदर्शक, वॉक ऑफ द अर्थ (Walk Off The Earth) के प्रदर्शनों का आनंद ले सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/canadaday](http://www.brampton.ca/canadaday) पर जाएं।

### **हवाले**

“कैनेडा डे, ब्रैम्पटन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हालांकि इस साल हम चिंगकूजी पार्क में व्यक्तिगत रूप से जश्न का आयोजन नहीं कर सकते, इसलिए हमने, कोविड-19 से सुरक्षा उपायों को उच्च प्राथमिकता देते हुए, व्यक्तिगत रूप से कैनेडा डे का जश्न मनाने का तरीका ढूंढा है। 1 जुलाई को हेलो कहें, और फिर ऑनलाइन जश्न मनाने के लिए घर जाएं!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इकट्ठे कैनेडा डे का जश्न मनाने के लिए हम, सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से निवासियों को मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि मास्क पहनें और पूरी तरह सफाई और शारीरिक दूरी कायम रखें और भोजन, संगीत और मजेदार गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ जुड़ें। उसके बाद, [www.brampton.ca/canadaday](http://www.brampton.ca/canadaday) पर ऑनलाइन प्रदर्शनों और पटाखों के डिस्प्ले का आनंद लें।”

- *गुरप्रीत दिल्ली (Gurpreet Dhillon), रीजनल काउंसलर, वाईस 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर*

“जैसे कि हम सुरक्षित रूप से सिटी को दुबारा खोल रहे हैं, कैनेडा की वर्षगांठ मनाने में हमारा समुदाय इकट्ठे जुड़ रहा है, मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि जश्नों में हिस्सा लें और शारीरिक दूरी कायम रखकर, अधिक से अधिक सुरक्षित रूप से जश्न मनाएं और पूरे ब्रैम्पटन में लाइव मनोरंजन का आनंद लें।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वाईस 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“मेयर और आपके काउंसलर्स को मिलने से लेकर, लाइव मनोरंजन, ऑनलाइन प्रदर्शनों, परिवार-अनुकूलित गतिविधियों और पटाखों के डिस्प्ले तक, इस कैनेडा डे का जश्न मनाने के लिए हर किसी के लिए स्वस्थ और सुरक्षित तरीके अपनाए जा रहे हैं। कृपया सुरक्षित रहें, शारीरिक दूरी कायम रखें और अपने घर से ऑनलाइन रात तक जश्न खत्म करें।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)